

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

08 अप्रैल 2019

**नेशनल इन्स्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में जामिया देश की 12 वीं श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी**

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता मापने के लिए स्थापित नेशनल इन्स्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क:एनआईआरएफ: में जामिया को विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 12वां स्थान मिला है। साथ ही इसके विधि विभाग और आर्किटेक्चर विभाग ने 8 वें नंबर पर अपनी अपनी जगह बनाई है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आज यहां विज्ञान भवन में जारी एनआईआरएफ सूची में आईआईटी, आईआईएम, आईआईसी जैसे देश के शीर्ष शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थानों में जामिया मिल्लिया ने 19 वें स्थान पर जगह बनाई है।

जामिया मिल्लिया को यह रैंकिंग मिलना उसके लिए गर्व की बात है क्योंकि एनआईआरएफ ने देश के 1479 शैक्षिक संस्थानों का अध्ययन करने के बाद उसे यह स्थान दिया है।

इंजीनियरिंग कॉलेज श्रेणी में विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी विभाग को 27 वां और मैनेजमेंट विभाग को 34 वां स्थान मिला है।

जामिया के कार्यकारी वाइस चांसलर प्रो शाहिद अशरफ ने कहा, “ मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वविद्यालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग में अपने पिछले स्थान को बरकरार रखा। जामिया ने एक लंबा सफर तय किया है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगले कुछ सालों में हम अपनी रैंकिंग में और सुधार करते हुए देश के पहले 10 उच्च शैक्षिक संस्थानों में अपनी जगह बनाने के लिए काम करेंगे। “

एनआईआरएफ, शिक्षा, संसाधनों, अनुसंधान और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन के नतीजों, विश्वविद्यालय की पहुंच, समावेशिता और अवधारणा जैसे मानदंडों पर देश के शैक्षिक संस्थानों का अध्ययन करके उनकी रैंकिंग तय करता है।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक